



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 51

27 अग्रहायण 1941 (श०)  
पटना, बुधवार, —————  
18 दिसम्बर 2019 (ई०)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9-विज्ञापन
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4-बिहार अधिनियम	पुरक
	पुरक-क

19-19

20-22

# भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पटना उच्च न्यायालय, पटना

अधिसूचनाएं

6 सितम्बर 2019

सं० 297 नि०:—श्री प्रदीप कुमार मलिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार को माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, पटना उच्च न्यायालय, पटना के स्थापना में, तत्काल प्रभाव से, विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 6<sup>th</sup> September 2019

No. 297 A:--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to transfer Sri Pradeep Kumar Malik, District and Sessions Judge, Katihar as Officer on Special Duty in the Establishment of the Patna High Court, Patna with immediate effect.

By Order of the Hon'ble the Chief Justice,  
B.B. Pathak, Registrar General.

7 सितम्बर 2019

सं० 298 नि०:—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित स्थान एवं स्तंभ 4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य हेतु स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान।	स्थान का नाम जहाँ पदाधिकारी स्थानान्तरित किए गए।	स्थानान्तरण श्रृंखला
1.	2.	3.	4.
1.	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेतिया	रोहतास स्थित सासाराम	सेवानिवृत्त श्री पारस नाथ राय के स्थान पर।
2.	श्री अवधेश कुमार दुबे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सासाराम।	मुंगेर	सेवानिवृत्त श्री ध्रुव नारायण यादव के स्थान पर।
3.	श्री सुभाष चन्द, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, लखीसराय।	सुपौल (दिनांक 01.10.2019 के प्रभाव से)	दिनांक 30.09.2019 को सेवानिवृत्त हो रहे सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 7<sup>th</sup> September 2019

No. 298 A:--The Principal Judge, Family Court, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as District and Sessions Judges at the stations mentioned in column no. 3 of the table against their respective names and in chain as indicated in column no. 4 of the table given below :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting.	Name of the station where the officer has been transferred.	Chain of Transfer
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Rajendra Pratap Singh, Principal Judge, Family Court, Bettiah.	Rohtas at Sasaram	Vice Sri Paras Nath Rai, since retired.
2.	Sri Awadhesh Kumar Dubey, Principal Judge, Family Court, Sasaram.	Munger	Vice Sri Dhruva Narain Yadav, since retired.
3.	Sri Subhash Chand, Principal Judge, Family Court, Lakhisarai.	Supaul (w.e.f. 01.10.2019)	Vice Sri Surendra Prasad Pandey, who is going to retire on 30.09.2019.

By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.

7 सितम्बर 2019

सं० 299 नि० :—निम्न तालिका के स्तंभ—2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, तालिका के स्तंभ—3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित।	अ) नए स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ स्थानांतरित किये गये हैं।
1.	2.	3.
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छपरा (सारण)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) बेनीपुर स) दरभंगा
2.	श्री अक्षय कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेनीपुर (दरभंगा)	अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब) दरभंगा स) दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 7<sup>th</sup> September 2019

No. 299 A :—The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred and posted as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 of the table against their respective names :

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting with Judgeship.	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer
1.	2.	3.
1.	Sri Dharmendra Kumar Singh, A.D.J., Chapra (Saran)	(a) Additional District and Sessions Judge (b) Benipur (c) Darbhanga
2.	Sri Akshay Kumar Singh, A.D.J., Benipur (Darbhanga)	(a) Additional District and Sessions Judge (b) Darbhanga (c) Darbhanga

**By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**7 सितम्बर 2019**

**सं० 302 नि०:**—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री फुल चन्द्र चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार के राज्यपाल—सह—कुलाधिपति सचिवालय, बिहार, पटना के रूप में प्रतिनियुक्त को सेवानिवृत्त श्री अमृत लाल यादव के स्थान पर भोजपुर स्थित आरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 7<sup>th</sup> September 2019*

No. 302 A :---On being relieved of his present assignment, Sri Phool Chandra Choudhary, Principal Judge, Family Court, presently posted as Officer-On-Special Duty in the Governor –cum- Chancellor's Secretariat, Patna on deputation is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhojpur at Ara vice Sri Amrit Lal Yadav, since retired.

**By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**7 सितम्बर 2019**

**सं० 300 नि०:**—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1	2	3
1.	श्री ब्रजेश कुमार पाठक, अवर न्यायाधीश I—सह—अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर (पटना)	(अ) अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (ब) औरंगाबाद (स) औरंगाबाद

2.	श्री संजीव कुमार II, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अररिया (अररिया)	(अ) अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (ब) मंझौल (स) बेगूसराय
----	--	---

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 7<sup>th</sup> September 2019*

**No. 300 A :---**The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-ACJM in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officers named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup> Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which transferred
1.	Sri Brajesh Kumar Pathak Sub Judge I-Cum-A.C.J.M., Danapur (Patna)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Aurangabad c) Aurangabad
2.	Sri Sanjeev Kumar II, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Araria (Araria)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Manjhaul c) Begusarai

**By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**7 सितम्बर 2019**

**सं० 301 नि०:---**निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री नरेश महतो, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी—सह— अपर मुंसिफ, मंझौल (बेगूसराय)	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) लखीसराय स) लखीसराय	लखीसराय

2.	श्री जुनेद आलम, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी—सह— अपर मुंसिफ, बेगूसराय।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) लखीसराय स) लखीसराय	लखीसराय
----	---	--	---------

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 7<sup>th</sup> September 2019*

**No. 301 A :---**The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of Judicial Magistrate 1<sup>st</sup> Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officers with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1.	2.	3.	4.
1.	Sri Naresh Mahto, J.M. I-cum-A.M., Manjhaur (Begusarai)	Judicial Magistrate Lakhisarai Lakhisarai	Lakhisarai
2.	Sri Juned Alam, J.M. I-cum-A.M., Begusarai	(a) Judicial Magistrate (b) Lakhisarai (c) Lakhisarai	Lakhisarai

**By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

#### 9 सितम्बर 2019

**सं० 303 नि०:—**निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जज्जी एवं स्थान पर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारियों को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त किए गये हैं	नये स्थान पर पदाधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कॉज्ज कोर्ट्स ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री रमेश कुमार, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, बक्सर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) बक्सर स) बक्सर	अ) बक्सर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) बक्सर मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
2.	श्री राहुल किशोर, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, औरंगाबाद।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) औरंगाबाद स) औरंगाबाद	अ) औरंगाबाद मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) औरंगाबाद मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
3.	श्री शिव कुमार शर्मा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) अररिया स) अररिया	अ) अररिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) अररिया मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
4.	श्री विजय कुमार मिश्रा, प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी—सह—अपर मुंसिफ, भागलपुर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) कहलगाँव स) भागलपुर	अ) कहलगाँव मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) कहलगाँव मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 9<sup>th</sup> September 2019*

**No. 303 A :---**The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officers concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Sri Ramesh Kumar, J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Buxar	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Buxar c) Buxar	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Buxar Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Buxar Munsifi.
2	Sri Rahul Kishore, J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Aurangabad	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Aurangabad c) Aurangabad	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Aurangabad Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Aurangabad Munsifi.
3	Sri Shiv Kumar Sharma, J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Araria	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Araria c) Araria	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Araria Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Araria Munsifi.
4	Sri Vijay Kumar Mishra, J.M. I -cum- A.M., Bhagalpur	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Kahalgaon c) Bhagalpur	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Kahalgaon Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Kahalgaon Munsifi.

**By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

21 सितम्बर 2019

**सं० 314 A** नि० :—सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम-से-कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा अवकाश में कार्यरत रहेंगे उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1964 (47-1964) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने-अपने जिलों/अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लंघन के



संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 260(1) (सी) के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 21st September 2019*

No. 314 A :---All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial Magistrate, 1<sup>st</sup> Class who have completed at least three years of service as such and who are detained during ensuing Civil Court's Durga Puja Vacation are hereby vested temporarily, for this period only, with the powers u/s 260(1)(c) of the code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) for the summary trial of offences arising generally within their respective Districts/Sub-Divisions relating to the contravention of any order made under sections 3 of the Essential commodities Act as amended by Essential Commodities (Amendment) Act 1964 (no. 47 of 1964) and duly notified in the official Gazette as laid down in section 12A of the Essential Commodities Act 1955.

**By order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

21 सितम्बर 2019

सं० 316 नि०:—निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ III में अंकित तिथि से बिहार वरीय न्यायिक सेवा संवर्ग में संपुष्ट किया जाता है:

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	सम्पुष्टि की तिथि
I	II	III
1.	श्री राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कैमूर, भभुआ।	08.08.2014
2.	श्री राज कुमार II, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना।	06.08.2014
3.	श्री ईशरातुल्लाह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी।	25.08.2014
4.	श्री आनंद बिहारी श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)।	27.07.2015
5.	श्री भरत सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	24.07.2015
6.	श्री कृष्णा प्रताप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगंज।	16.07.2015

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 21st September 2019*

**No. 316 A :** The following officers are confirmed in the cadre of Bihar Superior Judicial Service with effect from the dates mentioned against their respective names in column III of the table given below:-

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	Date of confirmation
I	II	III
1.	Sri Raghwendra Mani Tripathi Principal Judge, Family Court, Kaimur at Bhabhua	08.08.2014

2.	Sri Raj Kumar II, Additional District and Sessions Judge, Patna	06.08.2014
3.	Sri Ishratullah, Additional District and Sessions Judge, Madhubani	25.08.2014
4.	Sri Anand Bihari Srivastava, Additional District and Sessions Judge (Retired)	27.07.2015
5.	Sri Bharat Singh, Additional District and Sessions Judge, East Champaran at Motihari	24.07.2015
6.	Sri Krishna Pratap Singh, Additional District and Sessions Judge, Kishanganj	16.07.2015

**By the Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**1 अक्टूबर 2019**

सं० 327 नि० :—श्री संतोष कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय को हिलसा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 1st October 2019*

No. 327 A :—Sri Santosh Kumar, Additional District and Sessions Judge, Begusarai is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Hilsa.

**By the Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**4 अक्टूबर 2019**

सं० 328 नि० :—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिकवादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-4 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-4 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहा नियुक्त कि गये हैं	नये स्थान पर अधिकारियों को प्रदान की गयी विशेष शक्तियाँ अ) बंगाल, आगरा एण्ड आसाम सिविल कोर्ट ऐक्ट के अंतर्गत (साधारण प्रक्रिया) ब) प्रोविन्सीयल स्मॉल कोजेज कोर्टस ऐक्ट 1987 के अंतर्गत
1	2	3	4
1.	श्री अभिषेक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर मुंसिफ, समस्तीपुर।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) ब) दलसिंगसराय स) समस्तीपुर	अ) दलसिंगसराय मुंसिफी की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) दलसिंगसराय मुंसिफी की

			स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ
2.	श्री राकेश रंजन, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी—सह—अपर मुंसिफ, गया।	अ) मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) ब) शेरघाटी स) गया	अ) शेरघाटी मुंसिफ की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत 150000 रुपये तक ब) शेरघाटी मुंसिफ की स्थानी सीमाओं के अंतर्गत 1000 रुपये तक लघुवाद की शक्तियाँ

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 4th October 2019*

**No. 328 A :---**The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

As mentioned in column no. 4, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 4, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 4, should not be exercised by the officers concerned unless it is published in the Bihar Gazette or in the District Gazette.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	a) Designation at the new station. b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily. c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer.	Special Power with which the Officer is vested at the new station a) Under the Bengal, Agra and Assam Civil Court Acts (under ordinary procedure). b) Under the provincial small causes Courts Act, 1987
1	2	3	4
1	Sri Abhishek Kumar J.M. I-cum-A.M., Samastipur	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Dalsingsarai c) Samastipur	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Dalsingsarai Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Dalsingsarai Munsifi.

2	Sri Rakesh Ranjan J.M. I-cum-A.M., Gaya	a) Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) b) Sherghati c) Gaya	a) Rs.1,50,000/- within the local limits of Sherghati Munsifi. b) S.C.C. Powers of Rs. 1000/- within the local limits of Sherghati Munsifi.
---	---	---	---

**By the Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**4 अक्टूबर 2019**

**सं० 329 नि०**—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1	श्री सुभाष कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, गया।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) शेरघाटी स) गया	गया

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 4th October 2019*

**No. 329 A** :---The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1<sup>st</sup> Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Sri Subhash Kumar J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Gaya	(a) Judicial Magistrate (b) Sherghati (c) Gaya	Gaya

By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.

4 अक्टूबर 2019

सं० 330 नि०:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	जिला का नाम
1.	2.	3.
1.	श्री समीर कुमार, परिक्षेमान असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि), बेतिया (पश्चिम चम्पारण)	पश्चिम चम्पारण

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

The 4th October 2019

**No. 330 A** :--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Probationary Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of Judicial Magistrate 2<sup>nd</sup> Class for the District noted against his name in column no. 3 of the table.

Sl. No.	Name of Officer with designation and present place of posting	Name of the District
1	2	3
1.	Sri Sameer Kumar, Probationary Civil Judge (Junior Division), Bettiah (West Champaran).	West Champaran

By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.

**4 अक्टूबर 2019**

**सं० 331 नि०:—**निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहाँ पर वे अधिष्ठित रहेंगे पर अवर न्यायाधीश सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में स्थानांतरित एवं नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन के जिला के क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है, बशर्ते उनके द्वारा निष्पादित दिवानी तथा आपराधिक वादों की संख्या 30:70 के अनुपात में हो।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित)	अ) नये स्थान का पदनाम ब) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी/स्थान जहाँ नियुक्त किये जाते हैं।
1.	2.	3.
1.	श्री संजीव कुमार II, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मंझौल (बेगूसराय)	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (ब) औरंगाबाद (स) औरंगाबाद
2.	श्री राजीव कुमार भारती, अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय (बेगूसराय)	(अ) अवर न्यायाधीश-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, (ब) मंझौल (स) बेगूसराय

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 4th October 2019*

**No. 331 A :—**The Judicial Officers of the cadre of Civil Judge (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are transferred and posted as Sub Judge-cum-ACJM in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section (3) of Section (11) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Officer named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1<sup>st</sup> Class for the concerned Districts, provided that they shall work in such a way that their disposal of Civil and Criminal matters must be in the ratio of 30:70.

Sl. No.	Name of the Officer, designation and present place of posting (with Judgeship)	(a) Designation at the new station (b) Place where the officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship/place in which transferred
1.	Sri Sanjeev Kumar II, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Manjhaul (Begusarai)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Araria c) Araria
2.	Sri Rajeev Kumar Bharti, Sub Judge-Cum-A.C.J.M., Begusarai (Begusarai)	a) Sub Judge-cum-ACJM b) Manjhaul c) Begusarai

**By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**4 अक्टूबर 2019**

**सं० 333 नि०**—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) को स्तम्भ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान	अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहाँ नियुक्त किए गये हैं।	जिला का नाम
1	2	3	4
1.	श्री उमेश प्रसाद, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जहानाबाद।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) सिकरहाना स) पूर्वी चम्पारण	पूर्वी चम्पारण
2.	श्री प्रणव कुमार भारती, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जहानाबाद।	अ) न्यायिक दण्डाधिकारी ब) बेनीपुर स) दरभंगा	दरभंगा

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 4th October 2019*

**No. 333 A** :---The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate in the judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of Judicial Magistrate 1<sup>st</sup> Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

Sl. No.	Name of the Officer with designation and present place of posting	(a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be ordinarily stationed at. (c) Name of the Judgeship in which posted.	Name of the District
1	2	3	4
1.	Sri Umesh Prasad J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Jehanabad	(a) Judicial Magistrate (b) Sikrahana (c) East Champaran	East Champaran
2.	Sri Pranav Kumar Bharti J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Jehanabad	(a) Judicial Magistrate (b) Benipur (c) Darbhanga	Darbhanga

**By Order of the High Court,**  
B.B. Pathak, Registrar General.

**14 अक्टूबर 2019**

**सं० 334 नि०**—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री नीतिश कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर की सेवायें बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के तिरहुत एरिया, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 14th October 2019*

**No. 334 A** :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri Nitish Kumar, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarpur is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Presiding Officer, Special Court, Tirhut Area, Muzaffarpur under North Bihar Power Distribution Company Limited of Bihar State Power (Holding) Company Limited, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**14 अक्टूबर 2019**

**सं० 335 नि०** :—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री रणविजय कुमार, सब जज—सह—ए०सी०जे०एम०, पटना की सेवायें, निबंधक, भू—सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के अधीन, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 14th October 2019*

**No. 335 A** :---On being relieved of his present assignment, the services of Sri Ranvijay Kumar, Sub Judge-cum-ACJM, Patna is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Govt. of Bihar, Patna for his appointment as Registrar in Real Estate Appellate Tribunal, Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

**By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**15 अक्टूबर 2019**

**सं० 336 नि०** :—न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नलिखित (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोर्ट) की सेवा उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में उल्लेखित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट की जाती है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान	संपुष्टि की तिथि
01.	श्री राम शकल राम, न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज (सेवानिवृत्त) 24वीं न्यायिक सेवा	30.09.2018

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 15th October 2019*

**No. 336 A** :---The service of following (Civil Judge, Junior Division) appointed on the basis of the result of 24<sup>th</sup> Judicial Service Competitive Examination is hereby confirmed w.e.f. the date indicated against his name in column 3.



Sl. No.	Name, designation and place of posting of the Officer	Date of Confirmation
01.	Sri Ram Sakal Ram, J.M. 1 <sup>st</sup> Class, Gopalganj (Retired) 24 <sup>th</sup> Bihar Judicial Service	30.09.2018

**By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**16 अक्टूबर 2019**

**सं० 337 नि०** :—श्री आशुतोष खेतान, अवर न्यायाधीश—सह—अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा वर्तमान में निलंबित को तत्काल प्रभाव से पटना व्यवहार न्यायालय स्थानांतरित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 16th October 2019*

**No. 337 A** :—Sri Ashutosh Khetan, Sub Judge-cum-A.C.J.M., Darbhanga presently **under suspension** is transferred to Patna Civil Court with immediate effect.

**By Order of the High Court,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**23 अक्टूबर 2019**

**सं० 343 नि०** :—शिल्पी सोनीराज, विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य न्यायाधीश सचिवालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना, जो वर्तमान में निबंधक (निगरानी), पटना उच्च न्यायालय, पटना से जुड़ी हैं को तत्काल प्रभाव से संयुक्त निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना नियुक्त किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 23rd October 2019*

**No. 343 A** :—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to appoint Ms. Shilpee Soniraj, Officer on Special Duty in the Chief Justice's Secretariat, Patna High Court, Patna, presently attached with Registrar (Vigilance), Patna High Court, Patna as Joint Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna with immediate effect.

**By Order of the Hon'ble the Chief Justice,  
B.B. Pathak, Registrar General.**

**23 अक्टूबर 2019**

**सं० 344 नि०** :—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री विनोद कुमार गुप्ता, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया की सेवायें बिहार राज्य पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना के अधीन दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के मगध एरिया, गया के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से,  
विधु भूषण पाठक, महानिबंधक।

*The 23rd October 2019*

**No. 344 A** :—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Vinod Kumar Gupta, Additional District & Sessions Judge, Gaya is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Presiding Officer, Special Court, Magadh Area, Gaya under

South Bihar Power Distribution Company Limited of Bihar State Power (Holding) Company Limited, Patna, on deputation basis, for a maximum period of three years.

**By Order of the High Court,**  
**B.B. Pathak, Registrar General.**

—  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 39-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

## भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण  
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 1362---मैं, **शिखा सिंह**, पत्नी विकास कुमार वर्मा, साकिन दुर्गा चरण लेन, थाना आलमगंज, पो.  
गुलजारबाग, जिला पटना-7 दिनांक 12.09.2019 को अपने उपनाम बदलने हेतु निष्पादित शपथ पत्र सं. 7081/ 2019  
के द्वारा सभी जगहों पर **शिखा वर्मा** के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

**शिखा सिंह।**

No. 1398.---I Biva Sinha W/o Binod Kumar Sinha residing Mangal Bhawan, A.K. Road,  
Machhuatoli, P.O.-Bankipur, P.S.-Kadamkuan, Dist.-Patna 800004 Vide Affidavit No.-16213  
dated 12.10.2019 shall be known Vibha Sinha for all future purpose.

Biva Sinha.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 39-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

# बिहार गजट

## का

### पूरक (अ०)

## प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 08/ नि०था०-11-02/2016, सा०-16353  
सामान्य प्रशासन विभाग

#### संकल्प

2 दिसम्बर 2019

श्री सुरेश पासवान (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 442/11, तत्कालीन विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरुद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष-2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षों में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताओं के लिए निगरानी थाना कांड संख्या-127/16 दिनांक 26.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग के पत्रांक 2756 दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 531 दिनांक 16.01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी सम्यक विचारोपरांत श्री पासवान को संकल्प निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर अलग से निर्णय लिया जायगा।

3. श्री पासवान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) में योगदान देंगे।

4. निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-117/2015, सा०प्र०-15717

#### संकल्प

शुद्धि-पत्र

20 नवम्बर 2019

श्री विनोद कुमार ठाकुर, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-567/11 विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-14169 दिनांक 16.10.2019 द्वारा (i) निन्दन (ii) संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में दो प्रक्रम पर अवनति का दंड संसूचित किया गया। उक्त संकल्प के कंडिका-(3) (i) में अंकित "निन्दन" के स्थान पर "निन्दन (आरोप वर्ष-2011 से 2014)" पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत् रहेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 08/आरोप-01-25/2014,सां०प्र०-15185

## संकल्प

8 नवम्बर 2019

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-1112/11) के विरुद्ध वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदस्थापन काल में सांसद स्थानीय विकास योजना अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों के क्रय एवं अधिष्ठापन में वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4679 दिनांक 30.10.2013 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-18138 दिनांक 27.11.2013 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 11.06.2014) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-12939 दिनांक 17.09.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-1006 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्राप्त मंतव्य में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप-पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7824 दिनांक 01.06.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 16.05.2017) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-11155 दिनांक 30.08.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की माँग की गयी। स्मरणोपरान्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य अप्राप्त रहा। तत्पश्चात श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र, प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से पूर्व में प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी तथा आरोपों की विस्तृत जाँच की आवश्यकता पायी गयी।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1112/11 के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है वे अपने बचाव बयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम बिशुन राय, अवर सचिव।

सं० 27/नि०था०-11-03/2019,सां०प्र०,—15912

## संकल्प

22 नवम्बर 2019

श्री ओम प्रकाश प्रसाद, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक 499/11) तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय को निगरानी धावादल के द्वारा दिनांक 17.11.2018 को 6,00,000.00 (छः लाख) रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर (पटना) भेजे जाने तथा उनके विरुद्ध निगरानी थाना काण्ड सं० 049/2018 दर्ज किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त तत्कालीन अपर समाहर्ता, बेगूसराय, (श्री ओम प्रकाश प्रसाद) को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16538 दिनांक 29.12.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(i)(क) एवं (ग) तथा नियम-9(2) में निहित प्रावधानों के तहत न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 17.11.2018) के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये निलंबित किया गया। उस समय निलंबित पदाधिकारी के काराधीन रहने के कारण कारामुक्त होने के उपरान्त उनकी निलंबन अवधि के लिये मुख्यालय निर्धारित नहीं किया जा सका।

आरोपित पदाधिकारी दिनांक 05.08.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 15.08.2019 से कारामुक्त हो गये हैं, किन्तु वे अभी भी निलंबन में ही हैं।

निलंबन अवधि में श्री प्रसाद का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णिया निर्धारित किया जाता है।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,,

राम बिशुन राय, अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 39-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>